



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5—सितम्बर 11, 2009 (भाद्रपद 14, 1931)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5—SEPTEMBER 11, 2009 (BHADRA 14, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 2009

सं. 481, दिनांक 7 जुलाई 2009—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी (सी एस एल संख्या 4026) श्री आर एस दहिया का नाम वर्ष 2007 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 06 अप्रैल, 2009 के आदेश सं. 4/9/2008—सीएस-I (डी) के संदर्भ में 06 अप्रैल 2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक इसी मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आंध्र प्रदेश : 93) के अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंघल को 24 जून 2009 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा उनके रक्षा राज्य मंत्री के निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ने अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा राज्य मंत्री (श्री एम. एम. पल्लम राजू) को निदेशक के स्तर पर निजी सचिव नियुक्त करते हैं। केन्द्र में उनकी सेवावधि 31 जनवरी 2008 से शुरू होती है।

राष्ट्रपति, वस्त्र मंत्रालय की नफ़री में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) श्री दिलीप कुमार साहू का नाम संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा कोट के तहत वर्ष 2005 के लिए अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 02 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक 9,300—34,800/- रु. के वेतनमान और 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित अदालती मामला रिट याचिका (सी) सं. 13245—60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित मामला सं. ओ ए 1083/2007 और एम ए सं. 1171/2007 के परिणाम के अध्यधीन है। अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित श्री दिलीप कुमार साहू की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगी।

राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय की नफ़री में सहायक श्री राम प्रभाकर का नाम संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 के आधार पर परीक्षा

कोय के तहत वर्ष 2005 के लिए अनुभाग अधिकारी के ग्रेड को चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें 02 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश जारी होने तक 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान और 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में रक्षा मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र बनाम भारत संघ द्वारा दायर उच्च न्यायालय, दिल्ली में लम्बित अदालती मामला रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 और श्री सौरांशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लम्बित मामला सं. ओ ए 1083/2007 और एम ए सं. 1171/2007 के परिणाम के अध्वधीन है। अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित श्री राम प्रभाकर की वरिष्ठता केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संघ बनाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक संघ के मामले में रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

के मुरली  
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 482, दिनांक 07 जुलाई 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित महिला अधिकारियों को ले. के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

ले. के पद पर

निम्नलिखित महिला अधिकारियों, जो डब्ल्यू एस ई एस (ओ)-31 कोर्स की हैं, ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) का छः मास का समय जोकि 22 मार्च 2008 से आरंभ हुआ था, पूरा कर लिया है। उनको उसी तिथि 22 मार्च 2008 से सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत ले. के पद पर पांच वर्ष के लिए अल्प सेवा आयोग प्रदान किया जाता है।

रश्मि रघुवंशी (डब्ल्यू एस नं.-01443 एन), ए ए डी निदिष्टता ज्येष्ठता ले. चेरियन सौम्या रेचल (डब्ल्यूएस नं.-01442 एल), ए ओ सी, रूपम शर्मा (डब्ल्यूएस नं.-01457 एन), ए ए डी निदिष्टता ज्येष्ठता ले. अभिलाषा उनियाल (डब्ल्यूएस नं.-01456 एल), ए ओ सी, दीपशीखा दत्ता (डब्ल्यूएस नं.-01501 एम), सिग्नल निदिष्टता ज्येष्ठता ले. पूनम थापा (डब्ल्यूएस नं.-01500 के), एओसी, रूबी दीक्षित (डब्ल्यूएस नं.-01506 एल), निदिष्टता ज्येष्ठता ले. रेखा कन्वाल (डब्ल्यूएस नं.-01505 एच), एओसी, रमा राजेन्द्रन (डब्ल्यूएस नं.-01526 वाई), इन्ट निदिष्टता ज्येष्ठता ले. वनिता पाठक (डब्ल्यूएस नं.-01525 डब्ल्यू), एओसी एवं अमरीन अख्तर (डब्ल्यूएस नं.-01533 पी), एओसी निदिष्टता ज्येष्ठता ले. कामना डंगवाल (डब्ल्यूएस नं.-01531 के), इंजीनियर्स जिनका नाम भारत वर्ष के राजपत्र में दिनांक 06 दिसम्बर 2008 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

नीलेश चौधरी  
ले. कर्नल  
सहायक सेना सचिव-8वीं

वायु शाखा

सं. 483, दिनांक 07 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

प्रशासन शाखा

फ्ला. अफसर सुमित महाजन (29578), 16 जून 2007 से प्रभावी

लेखा शाखा

फ्ला. अफसर टी आर अनीश (29579), 16 जून 2007 से प्रभावी

वायु सेना

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) दिनांक 27 जून 2008 से प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पूर्व तिथि (ante-date) प्रदान की जाती है :--

भारतीय वायु सेना

फ्लाईंग ऑफिसर संदीप शर्मा (29648), आई(एल), साकेत सहगल (29617) आई(एल), दीपक शर्मा (29631) आई(एल), राहुल त्रिपाठी (29629) आई(एल), पंकज नारायण (29608), आई(एल), संदीप राणा (29603) आई(एम), प्रेमवीर सिंह (29639) आई(एल), बलदीप सिंह (29645) आई(एल), सी चेरामन्नन (29650) आई(एल), तनिश अरोड़ा (29646) आई(एल), जय बिहारी माथुर (29632) आई(एल), अंकित शर्मा (29619) आई(एल), प्रीतपाल सिंह (29644) आई(एल), फिदाउल्लाह जाफरी (29625) आई(एम), गंगिनानी भरत (29605) आई(एल), क्रिशन चन्द्रा त्रिपाठी (29633) आई(एल), फिरोज़ एम (29634) आई(एम), शलभ शर्मा (29611) आई(एम), अंकित दीक्षित (29647) आई(एल), सुमित कुमार (29636) आई(एल), चेतन गोसाई (29620), आई(एम), आशिष वशिष्ठ (29604) आई(एल), शुभांशु श्रीवास्तव (29624), आई(एम), अपूर्वा गौरव (29643) आई(एल), वैकट रवि कुमार मुष्पा (29609) आई(एम), जोते बाला महेन्दर (29606) आई(एल), अनिल शर्मा (29623) आई(एल), फहद कमाल (29638) आई(एल), कबि प्रसाद दाश (29614) आई(एम), अंशुमन होता (29641) आई(एल), श्रीराम नटराजन (29630) आई(एल), के प्रभाकर राजू (29607) आई(एल), टी संतोष बाबा (29649) आई(एल), जयकृष्णन धेककुमफ्त (29627) आई(एल), सन्नी धनराज शर्मा (29642) आई(एम), अभिषेक अंतिल लुडस (29672) आई(एम), विजित कुमार (29626) आई(एल), संदीप शर्मा (29615) आई(एम), अमित कुमार लवानिया (29640) आई(एल), नवनीत गौड़ (29612) आई(एल), शौर्व बाजपेई (29616) आई(एल), विपुल उपाध्याय (29621) आई(एल) 27 जून 2006 से प्रभावी।

उड़ान (मार्ग निदेशक) शाखा

फ्ला. अफसर श्रीकांत भारद्वाज (29454) सुरजीत घोष (29461), संदीप सहरावत (29475), सुमित मेसी (29489), के प्राचित (29499), राहुल कुमार पंजिया (29508), रतीश नारायणन मनपट्टिल (29510),

मोहित आनंद (29515), विकास यादव (29519), 16 जून 2007 से प्रभावी।

#### उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर संदीप जैन (29439), दीपक गिल (29440), सिद्धेश कार्तिक (29441), रोनित बैनर्जी (29442), नितिन गोस्वामी (29443), लोकेश मनचन्दा (29444), सूरज शिंदे (29445), मुकेश कुमार (29446), अर्जुन मनोहर (29447), मृणाल रंजन (29448), गुरप्रीत सिंह (29449), रौनक सहाय (29450), अक्षय अरूण महाले (29451), नेविल्ले वाज (29452), निखिल निरंजन (29453), अंकुश कुमार (29455), कणव भारतेन्दु (29456), चैतन्य सूर्यवंशी (29457), संतोष कुमार दलाई (29458), शैलेन्द्र कुमार सिंह (29459), जॉमिस जॉय (29460), जय सिंह (29462), विनीत गोस्वामी (29463), विक्रम सेठ (29464), अनिल कुमार (29465), एम अनुप कृष्णन (29466), नवीन चन्द कुट्टीपरमपतु कुंजप्पन (29467), उत्तम कुमार चौहान (29468), शिवांकुर देवेसर (29469), नरेन्द्र कँवर (29470), सिद्धार्थ प्रधान (29471), आशुतोष भडोला (29472), डायश (29473), मानस कुमार गुहा (29474), सम्राट इनला (29476), नितिन राज (29477), दीपक धींगरा (29478), मनीष त्रिपाठी (29479), अरिंदम गुप्ता (29480), संकल्प तिवारी (29481), दीपक चौहान (29482), रोमित बुधवर (29483), उदय शंकर अरविंद सुबमण्यम (29484), बलराज सिंह लोगिया (29485), अनुप कुमार सिंह (29486), सिद्धार्थ चोपड़ा (29487), मनोज शर्मा (29488), अभिनव सांखला (29490), जयदीप सिंह राठौर (29491), चेतन अहलावत (29492), अंजन कुमार (29493), एल नंदा राजेन्द्र (29494), निकेत तिवारी (29495), अनीत सिंह राठी (29496), रशिकुर्रहमान (29497), अनिल कुमार (29498), राहुल मिश्रा (29500), कुँवर निशांत सिंह (29501), मददली वेंकट श्री हर्ष (29502), शोभित व्यास (29503), मुदित विश्वेशभाई देसाई (29504), आक्षय चोपड़ा (29505), मयंक कुकरेती (29506), शैलेश सिंह (29507), बासु अविक पार्थ (29509), जगजीत सिंह मनकू (29511), विकास (29512), गौतम बजाज (29513), श्रीराम नायडू मुल्लापुडी (29514), सुचित अग्रवाल (29516), हेरोजित सिंह मोइरंगजम (29517), अंकित कुमार गौड़ (29518)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### संभारिकी शाखा

फ्ला अफ. मोहम्मद निशात अफजल (29568), उमेन्द्र कुमार त्रिपाठी (29569), नरेन्द्र कुमार सिंह (29570), धनंजय प्रसाद सिंह (29571), एम सुनील कुमार (29572), राजू विजयन चूलाकल (29573)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### शिक्षा शाखा

फ्ला अफ. वीरेन्द्र सिंह (29574), 16 जून 2007 से प्रभावी

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अफसरों को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं :--

#### उड़ान (पायलट) शाखा

फ्ला. अफ. एम पी सुमति (29575), खुशबू गुप्ता (29576), विधाते अरुणिमा जीवन (29577)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### प्रशासन शाखा

फ्ला अफ. कामिया बिष्ट (29580), अंजली मिश्रा (29581), दर्शना सोनकर (29582)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### संभारिकी शाखा

फ्ला अफ. श्वेता पटनिया (29583), शिवा गर्ग (29584), --16 जून 2007 से प्रभावी

#### लेखा शाखा

फ्ला अफ. अपेक्षा मिश्रा (29585), विश्वनाथन पद्मजा कामाक्षी (29586), राजरत्न नेगी (29587), तनु सिंह (29588), नेहा राणा (29589)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### शिक्षा शाखा

फ्ला अफ. चेतना गुलिया (29590), रीना (29591), सुचेता (29592), कल्पना कुमारी (29593), चित्ते सुप्रिया सुनील (29594), नसरीन फातिमा (29595), कुसुम (29596)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### मौसम विज्ञान शाखा

फ्ला अफ. अश्वनी भरत कदम (29172), भारती वल्स (29173)

--16 जून 2007 से प्रभावी

#### वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक), इलैक्ट्रॉनिकी

फ्ला. अफसर अर्चना एस (29663) आई(एल), अर्चना सुभाष राय (29658) आई(एल), प्रिया शदांगी (29668) आई(एल), सुवासिता खरे (29666) आई (एल), रजित कुमार (29653) आई(एल), निशा गोवर्धन (29669) आई(एल), खुशबू गुप्ता (29660) आई(एल), मोहम्मद अक्रम मुअल्लिम (29613) आई(एल), मोहम्मद इस्माइल (29637) आई(एल), इंदु यादव (29655) आई(एम), दीपेश कुमार यादव (29652) आई(एम), कंचन शर्मा (29656) आई(एल), प्रज्ञा तम्बे (29659) आई(एल), शोभित जौहरी (29654) आई(एल), भावना चौहान (29667) आई(एल), तुलिका सिंह (29665) आई(एल), दीप्ती दुबे (29664) आई(एल)

--28 जुलाई 2008 से प्रभावी

एन. विजय कुमार  
विंग कमांडर  
जेडीपीओ-3(डी)

## सेना सचिव शाखा

सं. 484, दिनांक 7 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :—

## नियमित सेना

## स्थायी सेना

## मेजर जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी आर्म एवं मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

आईसी-33704, ब्रिगेडियर जे एन यादव, एएडी, 03 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-33734, ब्रिगेडियर ए एस ग्रेवाल, मेक इन्फैंट्री, 03 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-33834, ब्रिगेडियर वाई एन शर्मा, एएडी, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-30997, ब्रिगेडियर ए के बक्शी, एसएन, वीएसएम, बिहार, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-30998, ब्रिगेडियर सुमेर सिंह सिक्ख, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-31007, ब्रिगेडियर अनिल मलिक 8, केव, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-31052, ब्रिगेडियर शक्ति गुरंग, वीएसएम, ग्रैनेडियर, 21 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-31062, ब्रिगेडियर एस एच महाजन, वीएसएम, मराठा लाई, 22 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-31070, ब्रिगेडियर एस बी एस चौधरी, एओसी, 03 नवम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी 31087, ब्रिगेडियर एन एम रसकिन्हा, राजपूत, 19 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-34677, ब्रिगेडियर वी एम टण्डन, इंजीनियर, 11 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-33914, ब्रिगेडियर वी के पिल्लै, एस एम राजपूत, 08 जनवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-33919, ब्रिगेडियर आर एस प्रधान, एस एम, वीएसएम, पारा 01 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-36046, ब्रिगेडियर पी एस चिब, एस एम, पंजाब, 01 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-31424, ब्रिगेडियर बी पी तिवारी, ए एस सी, 01 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 अक्टूबर 2007 से दी जाएगी

आईसी-36719, ब्रिगेडियर आर एन चक्रवर्ती, वी एस एम, सिग्नल, 01 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जुलाई 2007 से दी जाएगी

आईसी-30774, ब्रिगेडियर वी के नारंग, सिग्नल, 07 मार्च 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जुलाई 2007 से दी जाएगी

## ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आई सी, आर्म, ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

आई सी-35919 कर्नल अमरजीत सिंह, एस एम, बिहार, 08 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 जुलाई 2007 से दी जाएगी।

आई सी-38205 कर्नल के के सन्नी, ए ई सी, 01 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जुलाई 2007 से दी जाएगी।

आई सी-39816 कर्नल एच एस धानी, इन्जी, 01 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जुलाई 2007 से दी जाएगी।

आई सी-37485 कर्नल ए एस जस्सर, राजपूत, 01 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जुलाई 2007 से दी जाएगी।

आई सी-38311 कर्नल एस. के. दुआ, एस एम, जैक लाई, 09 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20 जुलाई 2007 से दी जाएगी।

एन के फूकन  
निदेशक/एम एस (एक्स)

## थल सेना शाखा

सं. 485, दिनांक 8 जुलाई 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल (और समकक्ष), से कर्नल (चयन), (और समकक्ष)  
के पद पर

के के शुक्ला (एम आर-05217-एन), 04 मई 2008 वेतन व पेंशन पर  
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मार्च 2008 से दी जाती है।

यश पाण्डे

ब्रिगेडियर

उप-महानिदेशक ससेचिसे (एच आर)

-----  
सेना शाखा

सं. 486, दिनांक 8 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों  
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

आई सी सं., नाम, आर्म

53564 विनोद कुमार तिवारी, इंफैंट्री, 10 जून 2008

55302 राजेश सिंह चौहान, आर्टी, 18 अप्रैल 2009

55305 अमितपाल सिंह, ए ए डी, 18 अप्रैल 2009

55306 तुषार मुखर्जी, इन्फैंट्री, 18 अप्रैल 2009

55307 राम चन्द्रन कुमार, आर्टी, 18 अप्रैल 2009

55308 वी जे एस रोपेड़िया, आर्टी, 18 अप्रैल 2009

55309 आनंद अशोक पाठक, आर्टी, 18 अप्रैल 2009

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

डब्ल्यू एस नं., नाम, आर्म, ले कर्नल दिनांक से

00167 अरुलमोझी वी, इंजीनियर्स, 09 सितम्बर 2007

कप्तान से मेजर

आई सी नं., नाम और आर्म

65666 अयोन चौधरी, एएडी

65667 संजय कुमार, इन्फैंट्री

65668 प्रकाश प्रसाद, मैक इन्फैंट्री

65669 धीरज सुदन, एओसी

65670 अजय सिंह, इन्फैंट्री

65671 सुभाष चंद पुनिया, इन्फैंट्री

65672 मनीष पुंज, इन्फैंट्री

65674 पुनीत सिंह अटवाल, इन्फैंट्री

65675 रविन्दर सैनी, इन्फैंट्री

65676 जय भारत राव अरिताकुला, इन्फैंट्री

65680 नरिन्दर सिंह छिब, एएससी

65682 जतिन्दर जसरोटिया, आर्टी

65683 जगदीश सिंह, इन्फैंट्री

65684 भाष्कर शिंदे, इन्फैंट्री

65685 पुष्पेन्दर सिंह, इन्फैंट्री

65687 राजीव पांडेय, इन्फैंट्री

65688 रिषि बक्षी, इन्फैंट्री

65689 रवि शिखरवर, इन्फैंट्री

65690 ध्रुव सारसवत, एसी

65691 टंडन गिरिश सी एम, आर्टी

65693 अमित भारद्वाज, इंजीनियर्स

65696 अजीत कुमार सिंह, एओसी

65697 वी सोमाशेखर एएससी

65698 विशाल शर्मा, एएडी

65700 विद्यार्थी डी कंचन, आर्टी

65701 अमित रावत, इन्फैंट्री

65702 अनिल मनहास, इन्फैंट्री

65703 समीर कादयान, एसी

65705 एम जिदेश कृष्णन, इंजीनियर्स

65706 कुलदीप राज, इन्फैंट्री

65707 सुनील, एएससी

65709 सुनील कुमार, मैक इन्फैंट्री

65710 हरमित सिंह बेदी, आर्टी

65711 एन जी परहित, एओसी

65712 नवीन सरवटे, इन्फैंट्री

65715 शिंदे संग्राम रामचन्द्र, इन्फैंट्री

65716 देवेन्द्र सिंह, इन्फैंट्री

65717 विनित बाजपेयी, इन्फैंट्री

65718 अनंत फोगट, एओसी

65719 विवेक गुप्ता, इंजीनियर्स  
 65721 एम पलानीसर्वनन, इन्फैन्ट्री  
 65722 गौरव राना, एएडी  
 65723 रंधीर सिंह सुरी, एएससी  
 65724 अजय कुमार इन्फैन्ट्री  
 65725 सुखविन्दर सिंह, आर्टी  
 65726 कार्तिक कुमार, आर्टी  
 65727 प्रज्ञा वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 65728 वकाडे समीर सुरेश, आर्टी  
 65729 धुनडुप केरोंगा, इन्फैन्ट्री  
 65731 विकास राजा, एओसी  
 65732 राहुल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65733 गौरव बाली, आर्टी  
 65734 वैदया अभिजीत अनिल, इन्फैन्ट्री  
 65736 क्षेत्रीमयुम बिकेन सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65737 युवराज सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65741 देवेन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65743 आनंदजीत सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65744 करण सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65745 हमीर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 65746 विरेन्दर सिंह, एएससी  
 65749 राजेश कुमार नायक, इन्फैन्ट्री  
 65751 अरूण कुमार एम, इन्फैन्ट्री  
 65752 दिवादकर कंदार राजीव, आर्टी  
 65753 कृष्णवीर सिंह चाहार, इंजीनियर्स  
 65755 रोहन साहनी, आर्टी  
 65756 रवनीत बरार, इन्फैन्ट्री  
 65758 नागेन्द्र सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री  
 65762 अभिषेक पनवर, इन्फैन्ट्री  
 65763 टी लियान मुंग, इन्फैन्ट्री  
 65764 देशपांडे अजिनकिया जगदीश, इंजीनियर्स  
 65766 सुनील पंकज गंगवाल, इन्फैन्ट्री  
 65767 मंदीप सिंह, आर्टी  
 65769 चेतन दत्ता, ईएमई

65770 मोहम्मद फारूक खान, एएससी  
 65771 चरणजीव सिंह, इन्फैन्ट्री  
 65773 संतोष कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

--07 मई 2009

जसवन्त सिंह  
 संयुक्त निदेशक  
 एम एस 8 सी

वायु शाखा

सं. 487, दिनांक 08 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेवा  
 प्रशासनिक शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

आर वाष्णैय (17032), प्रशा., 15 दिसम्बर 2004/01 जनवरी 2003 (नो.से.)

{इनका नाम विंग कमांडर के ए किरण (16654) प्रशा. तथा विंग कमांडर एस कुमार (16658) प्रशा. के बीच में आयेगा}

संभारिकी शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में

वी रामाकृष्णा (16446), संभा., 01 नवम्बर 2003

{इनका नाम विंग कमांडर जी बरूआ (16853) संभा. के ऊपर आयेगा}

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक-(अधिकारी)-2(बी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 488, दिनांक 08 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में दिनांक 01 सितम्बर 2008 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

नाम श्री/श्रीमती, प्रयोगशाला/स्थापना, वर्तमान ग्रेड, पदोन्नति, पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान (संशोधन पूर्व) (रु.)

बी नागेश्वरराव, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-

वाई गंगाधर राव, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

एम कृष्णा कुमारी, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

एन प्रभावति, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

टी सुरेश बापूजी, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

जे एन भागुजी (अ.जाति), डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

प्रेम नाथ राव, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

के सुब्रामन्या सारमा, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

सी एच वी सुब्बा राव, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

अमरनाथ शर्मा, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

के श्रीनिवास राव, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

सी एच एस आर के सारमा, डीएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

मोहिदुदीन नईम, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-

एस भाग्यलक्ष्मी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 10,000-325-15,200/-

एस वी श्रीदेवी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

रामासत्यनारायना, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

एस वानी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

आर वैथीलिंगम, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

एम वसंता कुमारी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

बी ए देव कुमार, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

ख्वाजा मोइनुद्दीन, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

जी स्वरूपा रानी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

के प्रकाश (अ.जाति), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

जे सदानन्द (अ.जाति), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

पी वीर भद्रा राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

पी सुब्बा राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

पी योहन, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

नारायणमूर्ति, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 10,000-325-15,200/-

शानमुखा चारी, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 10,000-325-15,200/-

एन वी रमेश, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 10,000-325-15,200/-

बी विश्वेश्वरा राव, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

बी शकुन्तला, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

बी बालाजी (अ.ज.जाति), डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

श्रीनिवास जुलुरु, डीआरडीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

विकर अहमद खान, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

राम सिंह (अ.ज.जाति), डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

जी देवकी नन्दन, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

सी बाबू प्रसाद, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

एस गिरिजा देवी, डीआरडीएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

एम रामुलु, डीआरडीएल, तकनीकी सहायक सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

पी एन बी प्रताप (अ.ज.जाति), डीआरडीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

मुनिश्वर (अ.जाति), टीबीआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-

खेम चन्द (अ.जाति), टीबीआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

आनन्द सिंह मेहता, टीबीआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

राम करन (अ.जाति), टीबीआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

डी वी गोस्वामी, टीबीआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

अन्जु कक्कर, टीबीआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-

पी स्वर्णा लाथा, डीएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

के प्रभाकर राव, डीएमआरएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, 7,450-225-11,500/-

सुनीता कालरा, टीबीआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-

पी शिवाकुमार, सीआईआर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

जी डी चन्द्रकान्ता, सीआईआर, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

ठाकुरी सिंह (अ.जाति), इनमास, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-

एन एल सोनी (अ.जाति), इनमास, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-

ओ पी यादव, सैपटम (पीस), तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-

पी जे गोगोई, डीआरएलटी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस गोस्वामी, डीआरएलटी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एस एस यादव, डीआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

ए बी नाशिकर, डीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

राम सिंह (अनु. जनजाति), डीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

ए पी बंसोड (अनु. जाति), डीआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एस पी पुरोहित, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-, 01 सितम्बर 2008

पी सी कटारिया (अनु. जनजाति), डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

केदार चन्द सोंगरा (अनु. जाति), डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

मोहद सौद, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

ए पी माधुर, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

डॉ. एस सी नेगी, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

जी एस गहलौत, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

यू एस चौहान, डीएलजे, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

जे एस हुड्डा, डीएलजे, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

डी डी टेमकर, एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

वी जे तिखे (अनु. जाति), एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

एस एच भाइक (अनु. जनजाति), एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

ए वी श्रीरंगन, एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

आर आर मेंगानी, एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

आर आर नाथ, एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

यू एन धायगुडे, एआरडीई, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

एम आर टी देवेन्द्रन, सीएबीएस, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

शोभा प्रभाकर, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-, 01 सितम्बर 2008

आर डी श्रीवास्तव, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस के लूथरा, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

कैलाश शर्मा, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008



साकेत मितल, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

अजीत सिंह, डीआईपीआर, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

जी आर पिल्लई, सीईएमआईएलएसी, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एल प्रकाश (अनु. जनजाति), सीईएमआईएलएसी, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एस एन रानाडे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-, 01 सितम्बर 2008

डी डी काम्बले (अनु. जाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-, 01 सितम्बर 2008

एस के पोटादार, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

के वी तिलेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 24 सितम्बर 2008

सुरेश सीताराम मोरे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस डी धारेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एम ई अपटे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस एस खालकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस वी गोले, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एम एल लोनकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

आर आर कुलकर्णी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस डी काम्बले (अनु. जाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

डी जी देशपाण्डेय, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस एल भालेराव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस बी कुलकर्णी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एस एल देशपाण्डेय, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

एन के कलबुर्गी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 02 सितम्बर 2008

यू बी कदम (अनु. जाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

पी डी बोधरे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

ए एस गायकवाड (अनु. जन. जाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

पी परमासिवन (अनु. जाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

बी जी पाटिल, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

जे डी यादव, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एम एस माथन, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एस आर नायक, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

डॉ. एमएस वीके फाडके, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

आई बी गाडे, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

वी एस जोशी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एम बालाजी, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

ए ए कोंडरा (अनु. जनजाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

पी के दिवेकर, एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

सईद अबीद हबीब (अनु. जनजाति), एचईएमआरएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

एन बी वाडेकर, एआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

ए के मोरे (अनु. जाति), एआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

बी टी निपाने (अनु. जनजाति), एआरडीई, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

बासुदेब पाल, आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, 12,000-375-16,500/-, 08 सितम्बर 2008

एस के राउल, आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

प्रदीप कुमार स्वाइन, आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

साहू बेनूधर, आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, 10,000-325-15,200/-, 01 सितम्बर 2008

दुर्गा दास घोष, आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

आर के दास, आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

सनातन खटुआ, (अनु. जनजाति) आईटीआर, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, 8,000-275-13,500/-, 01 सितम्बर 2008

आर एस कपिल (अनु. जाति), डीईएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 09 सितम्बर 2008

नीलामणो साहू, आईटीआर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

सर्वेस्वर नाथ, आईटीआर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 23 सितम्बर 2008

लोकनाथ नायक (अनु. जनजाति), आईटीआर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

पी जी अदसुल, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

जी आर तावरे, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 02 सितम्बर 2008

बी एस गडाडे, एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, 7,450-225-11,500/-, 01 सितम्बर 2008

बी बी शर्मा  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

सं. 489, दिनांक 9 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निदेशक  
डा के के कीर्ति (एस सी एस एल सं. 940 एवं जन्म-तिथि : 13 जून

1949) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस के रस्तोगी  
अवर सचिव

सं. 490, दिनांक 9 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में उप सचिव श्री देशराज मेहरा (एस सी एस एल सं. 3924 एवं जन्म-तिथि : 07 जून 1949) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली  
अवर सचिव

सं. 491, दिनांक 9 जुलाई 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव श्री कुलबीर सिंह वोहरा (चयन सूची 1990 (एस क्यू) तथा जन्म-तिथि : 01 जुलाई 1949) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस के रस्तोगी  
अवर सचिव

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 492, दिनांक 9 जुलाई 2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री ए. एस. चडा, तकनीकी अधिकारी 'सी', वैमानिकी निदेशालय, डीआरडीओ मुख्यालय 30 जून 2009 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गये हैं और 01 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित हो गये हैं।

बी बी शर्मा  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

#### सेना शाखा

#### शुद्धि-पत्र

सं. 493, दिनांक 10 जुलाई 2009

भारत के राजपत्र सं. में दिनांक 21 मार्च 2008 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

आई सी : 65264 वी सिद्धार्थ, ईन्फैन्ट्री

के बदले

पढ़ा जाए : रिक्त

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एम एस 8 सी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th September 2009

No. 481, dated 07 July 2009—Consequent upon his inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2007, the President is pleased to appoint Shri R. S. Dahiya, CSS (CSL No. 4026), Under Secretary, Ministry of Defence as Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis, in the same Ministry, w.e.f. 06.04.2009 (FN), and until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/9/2008-CS.I(D) dated 06.04.2009.

The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Singhal, IAS (AP : 93) as Private Secretary to the Minister of State for Defence (Shri M. M. Pallam Raju) at the level of Director w.e.f. 24.06.2009 (FN) for a period of 5 years or till he ceases to function as Private Secretary to the Raksha Rajya Mantri or until further orders, whichever is earlier. He counts his tenure at the Centre w.e.f. 31.01.2008.

The President is pleased to appoint Shri Dilip Kumar Sahu, Section Officer (ad-hoc) borne on the strength of Ministry of Textile as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 02.07.2009 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005.

2. The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case W.P.(C) No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi. The seniority of Shri Dilip Kumar Sahu recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. the Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

The President is pleased to appoint Shri Ram Prabhakar, Assistant borne on the strength of Ministry of Steel as Section Officer on regular basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 02.07.2009 (FN) until further orders, consequent on inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2005 against Examination Quota on the basis of Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005.

2. The aforesaid appointment is subject to outcome of Court Case W.P.(C) No. 13245-60/2005 filed by Kailash Chander Vs. UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi. The seniority of Shri Ram Prabhakar recommended for appointment as Section Officer shall be subject to the final

outcome of the Writ Petition (C) No. 4876/2007 in the matter of the Central Secretariat Stenographers' Service Association Vs. the Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association.

K MURALI  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 482, dated 07 July 2009—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## (SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt.

1. The undermentioned Lady Cadets of WSES(O)-31 Course have completed Special Short Service Commission (on probation) for six months commencing from 22 Mar 2008. They are granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 22 Mar 2008 under the provisions of SAI 1/S/92 as amended :—

Rashmi Raghuvanshi (WS-01443N), AAD with seniority next below to Lt Cherian Saumya Rachel (WS-01442L), AOC, Rupam Sharma (WS-01457N), AAD with seniority next below to Lt Abhilasha Uniyal (WS-01456L), AOC, Deepshikha Dutta (WS-01501M), Sigs with seniority next below to Lt Poonam Thapa (WS-01500K), AOC, Rubby Dixit (WS-01506L), AEC with seniority next below to Lt Rekha Kanwal (WS-01505H) AOC, Rama Rajendran (WS-01526Y), Int with seniority next below to Lt Vanita Pathak (WS-01525W), AOC and Amreen Akhtar (WS-01533P), AOC with seniority next below to Lt Kamna Dangwal (WS-01531K) Engrs whose names are published in the Gazette of India on 06 Dec 2008.

NILESH CHOWDHARY

Lt Col  
AMS 8B

## AIR FORCE

No. 483, dated 07 July 2009—The President is pleased to confirm the undermentioned award officers wef the date stated against their names who were granted Permanent Commission.

INDIAN AIR FORCE  
ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Sumeet Mahajan (29578) wef 16 Jun 07

## ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr TR Aneesh (29579) wef 16 Jun 07

The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Permanent Commission (on probation) wef 27 Jun 08. They are granted ante date wef the dates stated against their names:—

**AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH**

Fg Offr Sandeep Sharma (29648), AE(L), Saket Sehgal (29617), AE(L), Deepak Sharma (29631), AE(L), Rahul Tripathi (29629), AE(L), Pankaj Narayan (29608), AE(L), Sandeep Rana (29603), AE(M), Premvir Singh (29639), AE(L), Baldeep Singh (29645), AE(L), C Cheramannan (29650), AE(L), Tanish Arora (29646), AE(L), Jai Bihari Mathur (29632), AE(L), Ankit Sharma (29619), AE(L), Pritpal Singh (29644), AE(L), Fidaullah Zaffari (29625), AE(L), Ganginani Bharti (29605), AE(L), Krishan Chandra (29633), AE(L), Firoz M (29634), AE(L), Shalabh Sharma (29611), AE(L), Ankit Dixit (29647), AE(L), Sumit Kumar (29636), AE(L), Chetan Gosain (29620), AE(L), Ashish Vashisht (29604), AE(L), Shubhanshu Srivastava (29624), AE(L), Apoorva Gaurav (29643), AE(L), MV Ravi Kumar (29609), AE(L), J Bala Mahender (29606), AE(L), Anil Sharma (29623), AE(L), Fahad Kamal (29638), AE(L), Kabi Prasad Dash (29614), AE(L), Anshuman Hota (29641), AE(L), Sriram N (29630), AE(L), K Prabhakar Raju (29607), AE(L), T Santosh Baba (29649), AE(L), Jaya Krihnan T (29627), AE(L), Sharma Sunny Dhanraj (29642), AE(L), Abhishek Louis (29672), AE(L), Vijit Kumar (29626), AE(L), Sandeep Sharma (29615), AE(L), Amit Kumar Lawania (29640), AE(L), Navneet Gaur (29612), AE(L), Shouriya Bajpai (29616), AE(L), Vipul Upadhyay (29621), AE(L) ante date wef 27 Jun 06.

**INDIAN AIR FORCE  
FLYING (NAVIGATOR) BRANCH**

Fg Offr SK Bhardwaj (29454), S Ghosh (29461), S Sehwari (29475), S Massey (29489), K Prachit (29499), RK Panjiyar (29508), R Narayanan (29510), M Anand (29515), Vikas Yadav (29519) wef 16 Jun 07.

**INDIAN AIR FORCE  
FLYING (PILOT) BRANCH**

Fg Offr Sandeep Jain (29439), Deepak Gill (29440), S Kartik (29441), Ronit Banerjee (29442), Nitin Goswami (29443), Lokesh Manchanda (29444), Sinde Suraj Ashok (29445), Mukesh Kumar (29446), Arjun M (29447), Marinal Ranjan (29448), Gurpreet Singh (29449), Raunaq Sahay (29450), Akshay Arun Mhale (29451), Neville Vaz (29452), Nikhil Niranjana (29453), Ankush Kumar (29455), Kanav Bhartendu (29456), CP Suryawanshi (29457), Santosh Kumar Dalai (29458), Shailender Kumar Singh (29459), Jomis Joy (29460), Jai Singh (29462), Vineet Goswami (29463), Vikram Seth (29464), Anil Kumar Yadav (29465), M Anoop Krishnan (29466), Naveen Chan KK (29467), Uttam Kumar Chauhan (29468), Shivkur Devesar (29469), Narender Kanwar (29470), Siddharth Pradhan (29471), Ashutosh Badola (29472), Daish (29473), Manas Kumar Guha (29474), Samar I (29476), Nitin Raj (29477), Deepak Dhinra (29478), M Tripathi (29479), Arindham Gupta (29480), Sankalp Tiwari (29481), Deepak Chauhan (29482), Romit Budhwar (29483), Aravind Subramaniam U (29484), Balraj Singh Longia (29485), Anup Kumar Singh (29486), Siddharth Chopra (29487), Manoj Sharma (29488), Abhinav

Sankhla (29490), Jaideep Singh Rathore (29491), Chetan Ahlawat (29492), Anjan Kumar Manna (29493), Nanda Rajender L (29494), Niket Tiwari (29495), AS Rathee (29496), Rashikur Rahman (29497), Anil Kumar (29498), Rahul Mishra (29500), Kunwar Nishant Singh (29501), Harsha MV (29502), Shobhit Vyas (29503), D Mudit Vishwasbhai (29504), Akshay Chopra (29505), Mayank Kukrati (29506), Shailesh Singh (29507), Basu Avik Partha (29509), Jagjeet Singh Mankoo (29511), Vikas (29512), Gautam Bajaj (29513), Sriram Naidu Mullapudid (29514), Suchit Agarwal (29516), M Heojit Singh (29517), Ankit Kumar Gaur (29518) wef 16 Jun 07.

**INDIAN AIR FORCE  
LOGISTICS BRANCH**

Fg Offr N Afzal (29568), U K T Gripathi (29569), N. K. Singh (29570), D P Singh (29571), M Sunil Kumar (29572), VC Raju (29573) wef 16 Jun 07.

**EDN BRANCH**

Fg Offr V Singh (29574) wef 16 Jun 07

The President is pleased to confirmed the undermentioned Short Service Commission (On Probation) wef the date state against their names who were granted Provisional Short Service Commission.

**INDIAN AIR FORCE  
FLYING (PILOT) BRANCH**

Fg Offr MP Shumathi (29575), Khushboo Gupta (29576), V Arunima Jeevan (29577) wef 16 Jun 07.

**INDIAN AIR FORCE  
ADM BRANCH**

Fg Offr Kamiya Bisht (29580), Anjali Mishra (29581), Darshana Sonkar (29582) wef 16 Jun 07.

**LGS BRANCH**

Fg Offr Shweta Pathania (29583), Shiva Garg (29584) wef 16 Jun 07

**ACCTS BRANCH**

Fg Offr Apeksha Mishra (29585), V Padmaja Kamakshi (29586), Rajranta Negi (29587), Tanu Singh (29588), Neha Rana (29589) wef 16 Jun 07.

**EDN BRANCH**

Fg Offr Chetna Gulia (29590), Reena (29591), Sucheta (29592), Kalpana Kumari (29593), Chitre Supriya Sunil (29594), Nasreen Fatima (29595), Kusum (29596) wef 16 Jun 07.

**MET BRANCH**

Fg Offr Ashwini Bharat Kadam (29172) and Bharti Vats (29173) wef 16 Jun 07.

**AERONAUTICAL ENGINEERING**

Fg Offr Ms Archana S (29663), AE(L), Ms Archana S Rai (29658), AE(L), Ms Priyanka Shadangi (29668), AE(L), Ms Suvasita Khare (29666), AE(L), Rajit Kumar (29653),

AE(L), Ms Nisha Goverdhan (29669), AE(L), Ms Khushboo Gupta (29660), AE(L), MD Aroam Muallim (29613), AE(L), MD Ismael (29637), AE(L), Ms Indu Yadav (29655), AE(M), Deepesh Kumar Yadav (29652) AE(M), Ms Kanchan Sharma (29656), AE(L), Ms Pragya Tambe (29659), AE(L), Shobhit Johri (29654), AE(L), Ms Bhawna Chauhan (29667), AE(L), Ms Tulika Singh (29665), AE(L), Ms Deepti Dubey (29664), AE(L) wef 27 Jun 08.

N VIJAY KUMAR  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

#### ARMY BRANCH

No. 484, dated 7th July 2009—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Maj Gen

IC No., Rank, Name, Arm, D.O. Subs Maj Gen

IC-33704 Brig Yadav JN, AAD, 03 Nov 2008 with seniority from 02 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-33734, Brig Grewal AS, Mech Inf, 03 Nov 2008 with seniority from 02 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-33834 Brig YN Sharma, AAD, 21 Nov 2008 with seniority from 03 Oct 07 with effect on pay and pension

IC-33997 Brig AK Bakshi, SM, VSM, Bihar, 21 Nov 2008 with seniority from 03 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-30998 Brig Sumer Singh, Sikh, 21 Nov 2008 with seniority from 03 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-31007 Brig Anil Malik, 8 Cav, 21 Nov 2008 with seniority from 04 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-31052 Brig Shakt Gurung, VSM, Gren, 21 Nov 2008 with seniority from 05 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-31062 Brig SH Mahajan, VSM, MLI, 22 Nov 2008 with seniority from 05 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-31070 Brig SBS Chaudhary, AOC, 03 Nov 2008 with seniority from 05 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-31087 Brig NM Rasquinha, Rajput, 19 Dec 2008 with seniority from 06 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-34677 Brig VM Tandon, Engrs, 11 Dec 2008 with seniority from 07 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-33914 Brig VK Pillai, SM, Rajput, 08 Jan 2009 with seniority from 08 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-33919 Brig RS Pradhan, SM, VSM, Para, 01 Feb 2009 with seniority from 08 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-36046 Brig PS Chib, SM, Punjab, 01 Feb 2009 with seniority from 09 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-31424 Brig BP Tiwari, ASC, 01 Feb 2009 with seniority from 10 Oct 07 without effect on pay and pension

IC-36719 Brig RN Chakarbarty, VSM, Sigs, 01 Feb 2009 with seniority from 08 Jul 07 without effect on pay and pension

IC-30774 Brig VK Narang, Sigs, 07 Mar 2009 with seniority from 10 Jul 07 without effect on pay and pension

To be Substantive Bri

IC-35919 Col Amarjeet Singh, SM, Bihar, 08 Sep 2008 with seniority from 07 Jul 07 without effect on pay and pension

IC-38205 Col KK Sunny, AEC, 01 Feb 2009 with seniority from 14 Jul 07 without effect on pay and pension

IC-39816 Col HS Dhanny, Engrs, 01 Oct 2008 with seniority from 14 Jul 07 without effect on pay and pension

IC-37485 Col AS Jassar, Rajput, 01 Oct 2008 with seniority from 16 Jul 07 without effect on pay and pension

IC-38311 Col SK Dua, SM, Jak LI, 09 Feb 2009 with seniority from 20 Jul 07 without effect on pay and pension

N K PHUKAN  
Dir/MS(X)

#### ARMY BRANCH

No. 485, dated 8th Jul 2009—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col to be Col (Selection & equivalent)

KK Shukla (MR-05217N), 04 May 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Mar 2008

YASH PANDE  
Brig  
Dy. DGAFMS (HR)

No. 486, dated 8th Jul 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name & Arms

53564 Binod Kumar Tiwari, EME, 10 Jun 2008

55302 Rajesh Singh Chauhan, Arty, 18 Apr 2009  
 55305 Amitpal Singh, AAD, 18 Apr 2009  
 55306 Tushar Mukherjee, Inf, 18 Apr 2009  
 55307 Rama Chandran Kumar, Arty, 18 Apr 2009  
 55308 VIS Roperia, Arty, 18 Apr 2009  
 55309 Anand Ashok Pathak, Arty, 18 Apr 2009

## SHORT SERVICE COMMISSION (WS)

Maj to be Lt Col

WS No., Name, Arm, Effective date

WS-00167 Arulmozhi V, Engrs, 09 Sep 2007

Capt to be Major

IC No., Name, Arm, Effective date

65666 Ayon Chaudhuri, AAD, 07 May 2009  
 65667 Sanjaya Kumar, Inf, 07 May 2009  
 65668 Prakash Prasad, Mech Inf, 07 May 2009  
 65669 Dhiraj Sudan, AOC, 07 May 2009  
 65670 Ajay Singh, Inf, 07 May 2009  
 65671 Subash Chand Punia, Inf., 07 May 2009  
 65672 Manish Punj, Inf, 07 May 2009  
 65674 Puneet Singh Atwal, Inf, 07 May 2009  
 65675 Ravinder Saini, Inf, 07 May 2009  
 65676 Jaya Bharat Rao Aritakula, Inf, 07 May 2009  
 65680 Narinder Singh Chib, ASC, 07 May 2009  
 65682 Jatinder Jasrotia, Arty, 07 May 2009  
 65683 Jagdeep Singh, Inf, 07 May 2009  
 65684 Bhaskar Shinde, Inf, 07 May 2009  
 65685 Pushpender Singh, Inf, 07 May 2009  
 65687 Rajeev Pandey, Inf, 07 May 2009  
 65688 Rishi Bakshi, Inf, 07 May 2009  
 65689 Ravi Shikarwar, Inf, 07 May 2009  
 65690 Dhruv Saraswat, AC, 07 May 2009  
 65691 Tandon Girish CM, Arty, 07 May 2009  
 65693 Amit Bhardwaj, Engrs, 07 May 2009  
 65696 Ajit Kumar Singh, AOC, 07 May 2009  
 65697 V Somashekhar, ASC, 07 May 2009  
 65698 Vishal Sharma, AAD, 07 May 2009  
 65700 Vidyanand D Kanchan, Arty, 07 May 2009  
 65701 Amit Rawat, Inf, 07 May 2009  
 65702 Anil Manhas, Inf, 07 May 2009

65703 Sameer Kadyan, AC, 07 May 2009  
 65705 M Jidesh Krishnan, Engrs, 07 May 2009  
 65706 Kuldeep Raj, Inf, 07 May 2009  
 65707 Suneel, ASC, 07 May 2009  
 65709 Sunil Kumar, Mech, Inf, 07 May 2009  
 65710 Harmeet Singh Bedi, Arty, 07 May 2009  
 65711 N G Parhit, AOC, 07 May 2009  
 65712 Naveen Sarwate, Inf, 07 May 2009  
 65715 Shinde Sangram Ramchandra, Inf, 07 May 2009  
 65716 Davinder Singh, Inf, 07 May 2009  
 65717 Vinit Bajpai, Inf, 07 May 2009  
 65718 Anant Fogat, AOC, 07 May 2009  
 65719 Vivek Gupta, Engrs, 07 May 2009  
 65721 M Palanisaravanan, Inf, 07 May 2009  
 65722 Gaurav Rana, AAD, 07 May 2009  
 65723 Randhir Singh Suri, ASC, 07 May 2009  
 65724 Ajay Kumar, Inf, 07 May 2009  
 65725 Sukhwinder Singh, Arty, 07 May 2009  
 65726 Kartik Kumar, Arty, 07 May 2009  
 65727 Pragya Verma, Inf, 07 May 2009  
 65728 Wakade Samir Suresh, Arty, 07 May 2009  
 65729 Dhundup Keronga, Inf, 07 May 2009  
 65731 Vikas Raja, AOC, 07 May 2009  
 65732 Rahul Singh, Inf, 07 May 2009  
 65733 Gaurav Bali Arty, 07 May 2009  
 65734 Vaidya Abhijeet Anil, Inf, 07 May 2009  
 65736 Kshetrimayum Biken Singh, Inf, 07 May 2009  
 65737 Yuvraj Shinh, Inf, 07 May 2009  
 65741 Davinder Singh, Inf, 07 May 2009  
 65743 Anandjit Singh, Inf, 07 May 2009  
 65744 Karan Singh, Inf, 07 May 2009  
 65745 Hameer Singh, Mech Inf, 07 May 2009  
 65746 Virender Singh, ASC, 07 May 2009  
 65749 Rajesh Kumar Nayak, Inf, 07 May 2009  
 65751 Arunkumar M, Inf, 07 May 2009  
 65752 Diwadkar Kedar Rajeev, Arty, 07 May 2009  
 65753 Krishnvir Singh Chahar, Engrs, 07 May 2009  
 65755 Rohan Sawhney, Arty, 07 May 2009  
 65756 Ravneet Brar, Inf, 07 May 2009

65758 Nagendra Singh Rathore, Inf, 07 May 2009  
 65762 Abhishek Panwar Inf, 07 May 2009  
 65763 T Lian Mung, Inf, 07 May 2009  
 65764 Deshpande Ajinkya Jagdish, Engrs, 07 May 2009  
 65766 Sunil Pankaj Gangal, Inf, 07 May 2009  
 65767 Mandeep Singh, Arty, 07 May 2009  
 65769 Chetan Dutta, EME, 07 May 2009  
 65770 Mohd Faruq Khan, ASC, 07 May 2009  
 65771 Charanjeev Singh, Inf, 07 May 2009  
 65773 Santosh Kumar Singh, Inf, 07 May 2009

JASWANT SINGH

Jt Dir  
MS-8C

#### AIR BRANCH

No. 487, dated 8th July 2009—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

#### INDIAN AIR FORCE

##### ADM BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (ADM Branch)

Rank, Name, Number, Br & date of Subs

WCR Varshney, 17032, Adm—15 Dec 2004/01 Jan 2003 (NS)

(His name will appear between Wg Cdr KA Kiran (16654) Adm and Wg Cdr S Kumar (16658) Adm in the Combined Gradation List)

##### LGS BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (LGS Branch)

Rank, Name, Number, Br & date of Subs

WC V Ramakrishna, 16446, LGS—01 Nov 2003

(His name will appear above Wg Cdr G Baruah (16853) LGS in the Combined Gradations List)

AK SINGH

Dy Dir of Personnel (Officers) 2(B)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 488, dated 8th July 2009—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef 01 Sep 2008 (F/N) as mentioned against each :—

Name, Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to & Pay Scale of Promoted Grade (Pre-revised) (Rs.)

B Nageswararao, DMRL, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-

Y Gangadhara Rao, DMRL, TO-B, TO-C 10,000-325-15,200/-

M Krishna Kumari, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

N Prabhavathi, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

T Suresh Bapuji, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

JN Bhaguji (SC), DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

Prem Nath Rao, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

K Subrahmanya Sarma, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

CH V Subba Rao, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

Amarnath Sharma, DMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

K Srinivas Rao, DMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-

CHSRK Sarma, DMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-

Mohiduddin Naim, DRDL, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-

S Bhaghialakshmi, DRDL, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-

SV Sridevi, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

Ramastyanarayana, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

S Vani, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

R Vaithilingam, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

M Vasanta Kumari, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

BA Deva Kumar, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

Khawaja Moinuddin, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

G Swaroopa Rani, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

K Prakash (SC), DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

J Sadanand (SC), DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

P Veera Bahadra Rao, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

P Subha Rao, DRDL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-

P Yohan, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-

P Narayanmurthy, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-

G Shanmukha Chary, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-



NV Ramesh, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500	SS Yadav (SC), DRDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
B Visweswara Rao, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-	AB Nashikkar, DRDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008
B Shakuntala, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-	Ram Singh (ST), DRDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008
B Balaji (ST), DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-	AP Bansod (SC), DRDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-, 01 Sep 2008
Srinivas Juluru, DRDL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-	SP Purohit, DLJ, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-, 01 Sep 2008
Vikar Ahmed Khan, DRDL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	PC Kataria (ST), DLJ, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008
Ram Singh (SC), DRDL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	Kedar Chand Songara (SC), DLJ, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008
G Devaki Nandan, DRDL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	Mohd Saud, DLJ, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008
C Babu Prasad, DRDL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	AP Mathur, DLJ, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008
S Girija Devi, DRDL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	SC Negi, DLJ, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-, 01 Sep 2008
M Ramulu, DRDL, TA-C, TO, 7,450-225-11,500/-	GS Gehlot, DLJ, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-, 01 Sep 2008
PNB Pratap (SC), DRDL, TA-C, TO, 7,450-225-11,500/-	US Chouhan, DLJ, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-, 01 Sep 2008
Munishwar (SC), TBRL, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-	JS Hooda, DLJ, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
Khem Chand (SC), TBRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-	DD Temkar, ARDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
Anand Singh Mehta, TBRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-	VJ Tikhe (SC), ARDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
Ram Karan (SC), TBRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-	SH Bhaik (ST), ARDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
DV Goswami, TBRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-	AV Sreerangan, ARDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
Anju Kakkar, TBRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-	RR Mengani, ARDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008
P Swarna Latha, DMRL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	RR Nath, ARDE, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500—01 Sep 2008
K Prabhakar Rao, DMRL, TA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	UN Dhaygude, ARDE, TA-C, TO, 7,450-225-11,500—01 Sep 2008
Sunita Kalra, TBR, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-	MRT Devendran, CABS, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
P Shivakumar, CAIR, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500/-, 01 Sep 2008	Shobha Prabhakar, SSPL, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500—01 Sep 2008
GD Chandrakantha, CAIR, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008	RD Srivastava, SSPL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
Thakuri Singh (SC), INMAS, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-	
NL Soni (SC), INMAS, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-	
OP Yadav, CEPTAM (Erstwhile PEACE) TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500/-	
PJ Gogoi, DRLT, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200/-, 01 Sep 2008	
S Goswami, DRLT, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500/-, 01 Sep 2008	

- SK Luthra, SSPL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
01 Sep 2008
- Kailash Sharma, SSPL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- Saket Mital, SSPL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- Ajeet Singh, DIPR, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- GR Pillai, CEMILAC, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- L Prakash (ST), CEMILAC, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—01 Sep 2008
- SN Ranade, HEMRL, TO-C, TO-D, 12,000-375-  
16,500—01 Sep 2008
- DD Kamble (SC), HEMRL, TO-C, TO-D, 12,000-375-  
16,500—01 Sep 2008
- SK Potadar, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- KV Tilekar, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—24 Oct 2008
- SS More, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
01 Sep 2008
- SD Darekar, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- ME Apte, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
01 Sep 2008
- SS Khalkar, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- SV Gole, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
01 Sep 2008
- ML Lonkar, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- RR Kulkarni, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- SD Kamble (SC), HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- DG Despande, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- SM Bhalerao, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- SB Kulkarni, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- SL Deshpande, HEMRL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- NK Kalburge, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—02 Sep 2008
- UB Kadam (SC), HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—01 Sep 2008
- PD Bothare, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- AS Gaikwad (ST), HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—01 Sep 2008
- P Paramasivan (SC), HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—01 Sep 2008
- BG Patil, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- JD Yadav, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- MS Mathan, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- SR Nayak, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- MS VK Phadke, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—01 Sep 2008
- IB Gade, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- VS Joshi, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- M Balaji, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- AA Kondra (ST), HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-  
13,500—01 Sep 2008
- PK Divekar, HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- Syed Abed Habib (ST), HEMRL, TO-A, TO-B, 8,000-  
275-13,500—01 Sep 2008
- Rameshwar Prasad, DEAL, TO-C, TO-D, 12,000-375-  
16,500—09 Sep 2008
- MR Gupta, DEAL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
01 Sep 2008
- Jagdish Kumar (SC), DEAL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—09 Sep 2008
- PS Chauhan, DEAL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
01 Sep 2008
- MR Semwal, DEAL, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—  
09 Sep 2008
- Sanjay Kaushik, DEAL, TO-B, TO-C, 10,000-325-  
15,200—01 Sep 2008
- Ravi Shankar, DEAL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
01 Sep 2008
- MD Yunus, DEAL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—  
09 Sep 2008

- Babu Ram (SC), DEAL, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—09 Sep 2008
- SO Pawale, ARDE, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500—01 Sep 2008
- AV Pavgi, ARDE, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500—29 Sep 2008
- SV Desai, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- MB Naidu, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- AD Swakul, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- RG Kamble (SC), ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- TD Garad, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- SV Bam, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- SD Bhambure, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- PS Rajhans, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- RK Datir, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- AK Chattopadhyay, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- DS Marulkar, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- SV Kulkarni, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- SH Telgu, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- SK Nema, ARDE, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- KS Saykar, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- LV Kadam, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- SK Thombare, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- NN Wathore (SC), ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- AR Surve (SC), ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- AM Phulambrikar, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- GS Shendge, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- SM Kulkarni, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- SP Mate, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- Joseph George, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- M Varghese, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- MD Kanbarkar, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- GS Sahota, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- PV Naik, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- NB Wadekar, ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- AK More (SC), ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- BT Nipane (ST), ARDE, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- Basudeb Pal, ITR, TO-C, TO-D, 12,000-375-16,500—08 Sep 2008
- SK Raul, ITR, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- Pradeep Kumar Swain, ITR, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- Sahoo Benudhar, ITR, TO-B, TO-C, 10,000-325-15,200—01 Sep 2008
- Durga Das Ghosh, ITR, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- RK Dash, ITR, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- Sanatan Khatua (ST), ITR, TO-A, TO-B, 8,000-275-13,500—01 Sep 2008
- RS Kapil (SC), DEAL, STA-C TO-A, 7,450-225-11,500—09 Sep 2008
- Nilamani Shao, ITR, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500—01 Sep 2008
- Sarbeswar Nath, ITR, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500—23 Sep 2008
- Lok Nath Nayak (ST), ITR, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500—01 Sep 2008
- PG Adsul, HEMRL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500—01 Sep 2008

JR Tavaré, HEMRL, STA-C, TO-A, 7,450-225-11,500—  
02 Sep 2008

BS Gadade, HEMRL, STA-C, TO-A, 7,450-225-  
11,500—01 Sep 2008

BB Sharma  
Jt. Director (Pers-1)

No. 489, dated 9th July 2009—The President is pleased to retire Dr. KK Kirty (SCSL No. 940 & DoB : 13.06.1949), Director, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.06.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

SK RASTOGI  
Under Secy.

No. 490, dated 9th July 2009—The President is pleased to retire Shri Deshraj Mehra, Deputy Secretary, (SCSL No. 3924 & DoB : 07.06.1949), Ministry of Defence from Government Service with effect from 30.06.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI  
Under Secy.

No. 491, dated 9th July 2009—The President is pleased to retire Shri Kulbir Singh Vohra, Private Secretary (Select List 1990 (SQ) & DoB : 01.07.1949), Director, Ministry of

Defence from Government Service with effect from 30.06.2009 (AN) on attaining the age of superannuation.

SK RASTOGI  
Under Secy.

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 492, dated 9th July 2009—Consequent upon attaining the age of superannuation Shri AS Chadha, TO 'C', Dte of Aeronautics, DRDO HQ retired from service with effect from 30 June 2009 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 July 2009 (FN).

BB SHARMA  
Jt. Director (Pers-1)

#### CORRIGENDUM

No. 493, dated 10th July 2009—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 01 Mar 2008 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made :—

For : IC 65264 V Sidharth, Inf

Read : —Blank—

JASWANT SINGH  
Jt. Director  
MS-8C